



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1933 (श10)

(सं0 पटना 630) पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

4 नवम्बर 2011

सं0 2288—महाप्रबंधक (गन्ना) एम0पी0 चीनी इण्डस्ट्रीज, मंझौलिया, प0 च0 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके क्षेत्र आरक्षण के संदर्भ में पूर्व निर्गत आदेश संख्या 2153, दिनांक 29 सितम्बर 2011 में अरेराज अंचल अंतर्गत ग्राम टिकुलिया (थाना नं0-45) क्रमांक 47 एवं 63 पर तथा ग्राम बनकटवा (85) क्रमांक 58 एवं 67 पर टंकण त्रुटि के कारण दो बार अंकित हो गया है जबकि क्रमांक (63) पर ग्राम पैठानपट्टी थाना नं0 145 एवं क्रमांक-67 पर ग्राम लछमनवा थाना नं0 146 जो पूर्व से उन्हें आरक्षित होते आ रहे हैं, अंकित होनी चाहिए।

चीनी मिल से प्राप्त उपरोक्त अभ्यावेदन एवं संचिका पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त आदेश दिया जाता है कि क्रमांक 63 पर अंकित ग्राम-टिकुलिया, थाना नं0 45 के स्थान पर ग्राम-पैठानपट्टी, थाना नं0 145 एवं क्रमांक 67 पर अंकित ग्राम बनकटवा थाना नं0 85 के स्थान पर ग्राम लछमनवा थाना नं0 146 पढ़ा जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्षेत्र में ग्राम-अरेराज (राजस्व थाना संख्या 104), ग्राम-बरवा (राजस्व थाना संख्या 105) एवं ग्राम-जागा छापर (राजस्व थाना संख्या-142) आरक्षण मुक्त हैं को वर्ष 2011-12 के लिए एम0पी0 चीनी इण्डस्ट्रीज लि0, मंझौलिया प0 चम्पारण के साथ ईख आपूर्ति हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

आदेश से,
विमलानन्द झा,
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 630-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>